

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1981/पौष 13, 1902
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1981/PAUSA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और उर्वरक विभाग)

जधितूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

का०जा० 8(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979
के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमने उपाबद्ध सारणी के
स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कीमत की उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस
पर उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वेशीय विनिर्मित प्रपुंज औषधियों
का विक्रय किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	औषधि का नाम	अधिकतम विपण्य कीमत (रु० प्रति कि० ग्रा०)
(1)	(2)	(3)
1.	विटामिन 'के' (मेनाडियोल डाइब्यूटिरेट तेल विलेय)	1671.87
2.	विटामिन 'के' (मिनाडियोल डाइफोस्फेट जल विलेय)	2723.49
3.	विटामिन 'के' (मेनाडाइमन आई०पी)	778.98
4.	विटामिन 'के' (एसिटा मेनाडाइमन)	768.02
5.	विटामिन 'के' (मेनाडाइमन सोडि० बाइ-सल्फाइड)	1052.16
6.	ऐम्फोटेरिसिन	1396.77
7.	फेनीरामिन मेलियट	582.74
8.	प्रोबेसिड	154.29
9.	क्लोफिनेट	223.76
10.	फूजमाइड	1426.15
11.	डिफेनियम हाइड्रोक्सी-नेप्थोट	99.89
12.	बरलगन किटोन	1810.20
13.	मेस्ट्रोनोल	55.90 प्रतिग्राह
14.	फेरस ग्लुकोनेट	44.50
15.	डाइलोकसानाइड पयूरोट	416.56

[सं० 8(57)/80-औषधि-II]

भार० एन० दास, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Chemicals and Fertilizers)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1980

S.O. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (3) of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table shall be sold.

TABLE

Sl. No.	Name of the drug	Maximum sale price (Rs. per kg.)
(1)	(2)	(3)
1.	Vitamin 'K' (Menadiol Dibutyrate Oil Soluble)	1671.87
2.	Vitamin 'K' (Menadiol Diphosphate Water Soluble)	2723.49
3.	Vitamin 'K' (Menandione I.P.)	778.98
4.	Vitamin 'K' (Acetamenadione)	768.02
5.	Vitamin 'K' (Menandione Sod. Bisulphite)	1052.16
6.	Amphotericin	1396.77
7.	Pheniramine Maleate	582.74
8.	Probencid	154.29
9.	Clofibrate	223.76
10.	Fruscmide	1426.15
11.	Bephenium Hydroxy-Napthoate	99.89
12.	Baralgon Ketone	1810.20
13.	Mestranol	55.90 per gm.
14.	Ferrous Gluconate	44.50
15.	Diloxanide Furoate	416.56

[No. 8(57)/80-Drug.II]

R.N. DAS, Dy.Secy.

